

Paper Code: 2000920

Booklet Sr. No.

(SET-D)

Candidate's Roll No. N125164

Signature of the invigilator

Time: 2 Hours

Maximum Marks: 100

Instructions to Candidate

امیدواروں کے لیے ہدایات

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. Please read very carefully the instructions for filling up the OMR Answer Sheet.
براہ کرم او ایف ایم آر جواب نامہ بھرنے سے متعلق ہدایات پوری توجہ سے پڑھیے۔
कृप्या ओ० एम० आर० उत्तरावली भरने से संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िये।
2. There is no negative marking in the test.
اس امتحان میں کوئی منفی مارکنگ نہیں ہے۔
इस जांच में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं है।
3. The use of calculator is not allowed.
کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
कैलकूलेटर उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
4. Please hand over the OMR Sheet to the invigilator before leaving the examination hall.
براہ کرم امتحان گاہ چھوڑنے سے پہلے جواب نامہ نگران کے حوالے کریں۔
कृप्या परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व ओ० एम० आर० शीट निरीक्षक को सुपुर्द करें।
5. There shall be no re-checking/re-evaluation of answer sheet.
جواب ناموں کی دوبارہ جانچ/دوبارہ تحسیب نہیں کی جائے گی۔
उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्निरीक्षण/पुनरांकलन नहीं किया जायेगा

1. Which practice will not conserve LPG in your kitchen?

- (a) Soaking the dal for some time before cooking it.
(b) Cooking food in a pressure cooker.
(c) Keeping the vegetables chopped before lighting the gas for cooking.
(d) Cooking food in an open pan kept on low flame.

कौनसी प्रक्रिया आपके रसोईघर में एल० पी० जी० को संरक्षित नहीं करेगी ?

- (a) पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना
(b) प्रेशर कूकर में खाना पकाना
(c) पकाने के लिए गैस जलाने से पहले सब्जी को काट लेना
(d) खुली कढ़ाही में कम ज्वाला पर भोजन पकाना

कون سی مشق آپ کے باورچی خانے میں L.P.G. کا تحفظ نہیں کرے گی؟

(a) بنانے سے پہلے دال کو کچھ وقت کے لیے بھگوना

(b) پریشر کوکر میں کھانا بنانا

(c) بنانے کے لیے گیس جلانے سے پہلے سبزی کو کاٹ لینا

(d) کھلی کڑاہی میں کم آنچ سے کھانا بنانا

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

2. When a person enters in a new country, it is called:

- (a) Emigration (b) Immigration
(c) Migration (d) None of these

जब एक व्यक्ति एक नये देश में प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं ?

- (a) प्रवासी (b) आप्रवासन
(c) प्रवास (d) कोई भी नहीं

جب ایک آدمی ایک نئے ملک میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟

(a) ہجرت (Emigration) (b) امیگریشن (Immigration)

(c) مائیگریشن (d) کوئی بھی نہیں

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(3)

3. Which is the oldest industry in the world?

- (a) Woollen (b) Cotton Textile
(c) Silk (d) Iron and Steel

विश्व का सबसे पुराना उद्योग कौनसा है ?

- (a) ऊनी (b) सूती कपड़ा
(c) रेशमी (d) लोहा और इस्पात

دنیا کی قدیم ترین صنعت کون سی ہے؟

- (a) اونی (b) سوتی کپڑا
(c) ریشمی (d) آئرن اور اسٹیل

4. The average density of population in India is..... person/km².

- (a) 385 (b) 45
(c) 382 (d) 442

भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति/किमी² है।

- (a) 385 (b) 45
(c) 382 (d) 442

ہندوستان میں آبادی کی اوسط کثافت شخص فی مربع کلومیٹر ہے۔

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- 45 (b) 385 (a)
442 (d) 382 (c)

5. Which article of the Indian Constitution states that untouchability has been abolished:

- (a) Article 14 (b) Article 17
(c) Article 21 (d) Article 22

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि छुवाछूत को समाप्त कर दिया गया है?

(a) अनुच्छेद 14

(b) अनुच्छेद 17

(c) अनुच्छेद 21

(d) अनुच्छेद 22

ہندوستانی آئین کی کس شق میں کہا گیا ہے کہ چھو اچھوت کو ختم کر دیا گیا ہے؟

17 شق (b)

14 شق (a)

22 شق (d)

21 شق (c)

6. How many members are nominated in Rajya Sabha by president?

~~(a)~~ 12

(b) 10

(c) 15

(d) 20

राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत किया जाता है ?

(a) 12

(b) 10

(c) 15

(d) 20

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

صدر کے ذریعہ راجیہ سبھا میں کتنے ممبر نامزد ہوتے ہیں؟

10 (b)

12 (a)

20 (d)

15 (c)

7. "A group of girls is harassed by a group of boys." comes under:

(a) Civil law

(b) Economical law

~~(c)~~ Criminal law

(d) Social law

“लड़कों के एक समूह द्वारा लड़कियों के समूह को परेशान करना” किस कानून में आता है ?

(a) नागरिक कानून

(b) आर्थिक कानून

(c) फैजदारी कानून

(d) सामाजिक कानून

P.T.O.

”لڑکوں کے ایک گروہ کے ذریعہ لڑکیوں کے ایک گروہ کو حراساں کرنا“ کس قانون کے ماتحت آتا ہے؟

- (a) شہری قانون
(b) معاشی قانون
(c) فوج داری قانون
(d) سماجی قانون

8. Indian Constitution begin with a:

- (a) Suggestion (b) Amendment
(c) Proposal (d) Preamble

भारतीय संविधान की शुरूआत किस से होती है ?

- (a) सुझाव से (b) संशोधन
(c) प्रस्ताव (d) प्रस्तावना

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

ہندوستانی آئین کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟

- (a) مشورہ (b) ترمیم
(c) تجویز (d) تمہید

9. The International demand for indigo was affected by the discovery of.....

- (a) Tea (b) Jute
(c) Woad (d) Rice

..... کی खोज سے नील की अंतर्राष्ट्रीय माँग पर बुरा असर पड़ा ।

- (a) चाय (b) जूट
(c) वोड (d) चावल

..... کی دریافت سے نیل کا بین الاقوامی مطالبہ متاثر ہوا۔

- (a) چائے (b) جوٹ
(c) ووڈ (Woad) (d) چاول

10. Rashtrapati Bhawan is situated at.....

- (a) Aravali Hill (b) Raisina Hill
(c) Shiwalik Hill (d) Mt. Abu

राष्ट्रपति भवन पर स्थित है।

- (a) अरावली पहाड़ियों पर (b) रायसेना पहाड़ियों पर
(c) शिवालिक पहाड़ियों पर (d) माउंट आबू पर

راشترپتی بھون پر واقع ہے۔

- (a) اروالی پہاڑیوں پر (b) رائے سینا پہاڑیوں پر
(c) شوالک پہاڑیوں پر (d) ماؤنٹ آبو پر

11. Who was the first Muslim President of Indian National Congress?

- (a) M.A. Jinnah (b) Abdul Kalam Azad
(c) M. A. Ansari (d) Badruddin Tayyabji

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ?

- (a) एम० ए० जिन्नाह (b) अबुल कलाम आजाद
(c) एम० ए० अंसारी (d) बदरुद्दीन तैय्यब जी

انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے مسلم صدر کون تھے؟

- (a) ایم۔ اے۔ جناح (b) ابوالکلام آزاد
(c) ایم۔ اے۔ انصاری (d) بدرالدین طیب جی

12. Under which system "Village Headman" was given the responsibility to collect the revenue and paying it to the Company.

- (a) Permanent Settlement (b) Mahalwari System
(c) Munro System (d) Ryotwari System

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

P.T.O.

किस भूमि लगान प्रणाली के अंतर्गत "ग्राम प्रमुख" को लगान वसूलने और उसे कम्पनी को जमा करने की जिम्मेदारी दी गयी ?

- (a) स्थायी बंदोबस्त (b) महाल वारी व्यवस्था
(c) मुनरो व्यवस्था (d) रैयत वारी व्यवस्था

कस مال گذاری نظام کے تحت "گاؤں پردھان" کو مال گذاری وصولنے اور اسے کمپنی کو جمع کرانے کی ذمیداری دی گئی؟

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

(b) محال واری نظام

(a) مستقل بندوبست

(d) رعیت واری نظام

(c) منرو نظام

13. Gandhiji broke the salt law at Dandi in.....:

- (a) 1930 (b) 1931
(c) 1932 (d) 1929

गाँधीजी ने डांडी में नमक कानून तोड़ा।

- (a) 1930 (b) 1931
(c) 1932 (d) 1929

گاندهی جی نے ڈانڈی میں نمک قانون توڑا۔

1931 (b)

1930 (a)

1929 (d)

1932 (c)

14. Tipu Sultan's Sword was made of.....:

- (a) Copper (b) Steel
(c) Brass (d) Wootz Steel

टीपू सुल्तान की तलवार से बनी थी-

- (a) ताँबा (b) इस्पात
(c) पीतल (d) वुट्ज स्टील

ٹیپو سلطان کی تلوار..... سے بنی تھی۔

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

(a) اسٹیل
(b) ڈزاسٹیل

(a) تانبہ
(c) پیتل

15. The tank and ponds specially constructed for the breeding of fish is called:

(a) Agriculture

(b) Pisciculture

(c) Viticulture

(d) Horticulture

مछली پالان کے لیے विशेष रूप سے निर्मित तालाब या पोखर को क्या कहते हैं ?

(a) कृषि

(b) पीसीकल्चर

(c) वितिकल्चर

(d) वागबानी

مچھلی پالنے کے لیے خاص مقصد سے بنائے گئے تالاب یا پونڈ کو کیا کہتے ہیں؟

(a) کاشت کاری

(b) پیسی کلچر

(c) وٹی کلچر

(d) باغبانی

16. Which city is known as the "Manchester of India"?

(a) Bombay

(b) Delhi

(c) Ahmedabad

(d) Kanpur

किस शहर को "मानचेस्टर ऑफ इंडिया" कहा जाता है?

(a) बम्बई

(b) दिल्ली

(c) अहमदाबाद

(d) कानपुर

کس شہر کو "مانچسٹر آف انڈیا" کہا جاتا ہے؟

(a) بمبئی

(b) دہلی

(c) احمد آباد

(d) کانپور

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(9)

17. What is the Full Form of FIR?

- (a) First Information Report (b) First Information Result
(c) First Incident Report (d) None of these

एफ० आई० आर० का पूरा रूप लिखिए-

- (a) प्रथम सूचना रिपोर्ट (b) अंतिम सूचना रिपोर्ट
(c) पहली घटना की रिपोर्ट (d) इनमें से कोई नहीं

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

ایف۔ آئی۔ آر۔ کی پوری شکل لکھئے۔

(b) حتمی معلومات کا نتیجہ

(a) پہلی انفارمیشن رپورٹ

(d) کوئی بھی نہیں

(c) پہلے واقعے کی رپورٹ

18. The key players in Indian Criminal Justice System is/are:

- (a) Criminal and Police
(b) Police, Public Prosecutor, Defence Lawyer and Judge
(c) Police and Public Prosecutor
(d) Police, Defence lawyer and Judge

भारतीय अपराधिक न्याय प्रक्रिया में मुख्य भूमिका होती है-

- (a) अपराधी और पुलिस की
(b) पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील और जज की
(c) पुलिस और सरकारी वकील
(d) पुलिस, बचाव पक्ष वकील और जज की

ہندوستانی مجرمانہ انصاف کے نظام میں کن کا کردار اہم ہے؟

(a) مجرم اور پولیس کا

(b) پولیس، سرکاری وکیل، دفاعی وکیل اور جج کا

(c) پولیس اور سرکاری وکیل کا

(d) پولیس، دفاعی وکیل اور جج

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

19. Mughal Empire started to decline after the death of:

(a) Akbar

(b) Shahjahan

(c) Bahadur Shah Zafar

(d) Aurangzeb

کिसکی مृतی کے बाद मुगल साम्राज्य की गिरावट शुरू हुयी ?

(a) अकबर

(b) शाहजहाँ

(c) बहादुर शाह ज़फ़र

(d) औरंगज़ेब

مغل سلطنت کا زوال کس کی موت کے بعد شروع ہوا؟

(a) شاہ جہاں

(b) اکبر

(c) اورنگ زیب

(d) بہادر شاہ ظفر

20. When did Delhi become capital of British India?

(a) 1911

(b) 1909

(c) 1808

(d) 1857

दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बना ?

(a) 1911

(b) 1909

(c) 1808

(d) 1857

P.T.O.

1909 (b)

1911 (a)

1857 (d)

1808 (c)

21. Diameter is:

(a) twice of the radius

(b) half of the radius

(c) equal to the radius

(d) one-third of the radius

व्यास है-

(a) दो गुना है त्रिज्या का

(b) आधा है त्रिज्या का

(c) बराबर है त्रिज्या के

(d) $\frac{1}{3}$ है त्रिज्या का

قطر ہے:

(b) نصف ہے نصف قطر کا

(a) دو گنا ہے نصف قطر کا

(d) $\frac{1}{3}$ ہے نصف قطر کا

(c) برابر ہے نصف قطر کے

22. The quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other:

(a) Parallelogram

(b) rectangle

(c) kite

(d) rhombus

चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे के लम्बवत है-

(a) समान्तर चतुर्भुज

(b) आयत

(c) पतंग

(d) सम चतुर्भुज

چار ضلعی جس کے وتر ایک دوسرے کے عموری ہیں:



(b) مستطیل

(a) متوازی اضلاع

(d) معین

(c) پتنگ

23. Each of the angles of a square is:

- (a) acute angle ~~(b) right angle~~
(c) obtuse angle (d) 180°

वर्ग का प्रत्येक कोण है-

- (a) न्यून कोण (b) समकोण
(c) अधिक कोण (d) 180°

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

مربع کا ہر ایک زاویہ ہے:

(b) زاویہ قائمہ

(a) زاویہ حادہ

(d) 180°

(c) زاویہ منفرجہ

24. If y- coordinate of a point is zero, then this point always lies:

- (a) I quadrant (b) II quadrant
~~(c) x-axis~~ (d) y-axis

यदि एक बिन्दू के y निर्देशांक शून्य है, तब यह बिन्दू हमेशा गुजरेगा-

- (a) I चतुर्थांश (b) II चतुर्थांश
(c) x-अक्ष (d) y-अक्ष

اگر ایک نقطے کے y-مختصات صفر ہے تب یہ نقطہ گزرے گا؟



(b) ربع II

(a) ربع I

(d) محور y-

(c) محور x-

25. Find the incorrect mathematical statement:

- (a) $4(x-5) = 4x - 20$ ~~(b) $3x + 2x = 5x^2$~~
(c) $x(3x+2) = 3x^2 + 2x$ (d) $2x + 3x = 5x$

P.T.O.

असत्य गणितीय कथन प्राप्त कीजिए-

(a) $4(x-5) = 4x - 20$

(b) $3x + 2x = 5x^2$

(c) $x(3x+2) = 3x^2 + 2x$

(d) $2x + 3x = 5x$

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

غلط علم ریاضی بیان حاصل کیجئے:

$3x + 2x = 5x^2$ (b)

$4(x-5) = 4x - 20$ (a)

$2x + 3x = 5x$ (d)

$x(3x+2) = 3x^2 + 2x$ (c)

26. The cube of 4 is:

(a) 12

(b) 8

(c) 4

(d) 64

4 का घन है-

(a) 12

(b) 8

(c) 4

(d) 64

4 का مکعب ہے:

8 (b)

12 (a)

64 (d)

4 (c)

27. If $(x-2)$ is a factor of $x^3 - 3x + 5a$, then the value of a is:

(a) 1

(b) -1

(c) $2/5$

(d) $-2/5$

यदि $(x-2)$, $x^3 - 3x + 5a$ का गुणखंड है, तो a का मान है-

(a) 1

(b) -1

(c) $2/5$

(d) $-2/5$

$2^3 = 6 + 5a$
 $= 8 - 6 + 5a$
 $= 2 + 5a = 0$
 $5a = -2$

اگر $(x-2)$ ، $x^3 - 3x + 5a$ کا جزو ضربی ہے تو a کی قیمت ہے؟

(a) 1

(b) -1

(c) $2/5$

(d) $-2/5$

28. $\left(\frac{4}{9}\right)^4 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{-7} = \left(\frac{4}{9}\right)^{2x-1}$ then the value of x is:

~~(a) -1~~

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) 1

$\left(\frac{4}{9}\right)^4 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{-7} = \left(\frac{4}{9}\right)^{2x-1}$ तब x का मान है।

(a) -1

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) 1

تب x کی قیمت ہے۔ $\left(\frac{4}{9}\right)^4 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{-7} = \left(\frac{4}{9}\right)^{2x-1}$

(a) $\frac{1}{2}$

(b) -1

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) 1

29. The square root of 169 is:

(a) -13

(b) 1.3

(c) -1.3

~~(d) 13~~

169 का वर्गमूल है-

(a) -13

(b) 1.3

(c) -1.3

(d) 13

P.T.O.

169 کا جذر المربع ہے:

1.3 (b)

-13 (a)

13 (d)

-1.3 (c)

30. On increasing the diameter of circle by 40%, its area will be increased by:

(a) 40%

(b) 80%

(c) 96%

(d) 100%

वृत्त का व्यास 40% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा?

(a) 40%

(b) 80%

(c) 96%

(d) 100%

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

دائرے کا قطر 40% بڑھانے پر اس کا رقبہ کتنا بڑھ جائے گا؟

80% (b)

40% (a)

100% (d)

96% (c)

31. One hectare is equal to:

(a) 100 m²

(b) 1000 m²

(c) 10,000 m²

(d) 10,000 m

एक हेक्टर बराबर है-

(a) 100 m²

(b) 1000 m²

(c) 10,000 m²

(d) 10,000 m

ایک ہیکٹر برابر ہے۔

m² 1000 (b)

m² 100 (a)

10,000 m (d)

m² 10,000 (c)

32. π is:

- (a) ratio of circumference to diameter.
(b) diameter to circumference
(c) 21/17
(d) 3.41

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

π (पाई) है-

- (a) परिधि और व्यास का अनुपात (b) व्यास और परिधि
(c) 21/17 (d) 3.41

π (पाई)

(b) قطر اور محیط

(a) محیط اور قطر کا نسبت ہے

(d) 3.41

(c) 21/17

33. A polygon with minimum number of sides is:

- (a) pentagon (b) Square
(c) triangle (d) angle

एक बहुभुज जिसमें कम से कम भुजाएँ होती हैं-

- (a) पंचभुज (b) वर्ग
(c) त्रिभुज (d) कोण

ایک کثیر ضلعی جس میں کم سے کم ضلعی ہوتی ہیں؟

(b) مربع

(a) پانچ ضلعی

(d) زاویہ

(c) مثلث

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(17)

34. What cross-sections do you get when you give a vertical cut to cylindrical base?

- (a) rectangle (b) Square
(c) Circle (d) triangle

जब तुम दिये गये बेलन के आधार को खड़ा काटते हो, तब तुम्हें क्या अनुप्रस्थ प्राप्त होता है ?

- (a) आयत (b) वर्ग
(c) वृत्त (d) त्रिभुज

جب تم دیے گئے اسطوانہ کے پینڈے کو عموری کاٹتے ہو تب تمہیں کیا ایتلاب حاصل ہوتا ہے؟

- (a) مستطیل (b) مربع
(c) دائرہ (d) مثلث

35. A cuboid has vertices.

- (a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 12

एक घनाभ के शीर्ष होते हैं-

- (a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 12

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

ایک کعب نما کے اس ہوتے ہیں؟

- 6 (b) 4 (a)
12 (d) 8 (c)

36. The value of $2x(-3x)$ is :

- (a) $5x^2$ (b) $-6x$
(c) $-5x^2$ (d) $-6x^2$

$2x(-3x)$ का मान है-

- (a) $5x^2$ (b) $-6x$
(c) $-5x^2$ (d) $-6x^2$

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

$2x(-3x)$ की قیمت ہے؟

- $-6x$ (b) $5x^2$ (a)
 $-6x^2$ (d) $-5x^2$ (c)

37. A is a skeleton-outline of a solid that can be folded to make it:

- (a) Vertices (b) edges
(c) faces (d) net

एक ठोस के ढांचे के प्रारूप को मोड़ सकते हैं, बनाने के लिए-

- (a) शीर्ष (b) किनारे
(c) फलक (d) जाल

ایک ٹھوس کے ڈھانچے کو موڑ سکتے ہیں، بنانے کے لیے:

- کنارے (b) راس (a)
جال (d) رُخ (c)

38. Which of the following is not binomial:

- (a) $m+n$ (b) mn
(c) $m-n$ (d) m^2-n^2

निम्नलिखित में द्विपद नहीं है-

- (a) $m+n$ (b) mn
(c) $m-n$ (d) m^2-n^2

P.T.O.

مندرجہ ذیل میں دور کنی نہیں ہے؟

$$mn \quad (b)$$

$$m+n \quad (a)$$

$$m^2 - n^2 \quad (d)$$

$$m-n \quad (c)$$

39. If the length of each side of the equilateral triangle is 1, then the perimeter of the equilateral triangle is:

$$(a) \quad 31$$

$$(b) \quad 3 + 1$$

$$(c) \quad 3 - 1$$

$$(d) \quad \frac{1}{3}$$

यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 है, तब समबाहु त्रिभुज का परिमाण होगा-

$$(a) \quad 31$$

$$(b) \quad 3 + 1$$

$$(c) \quad 3 - 1$$

$$(d) \quad \frac{1}{3}$$

اگر ایک مساوی ضلعی مثلث کی ہر اضلاع 1 ہے تب مساوی ضلعی مثلث کا گھیر ہوگا؟

$$3 + 1 \quad (b)$$

$$31 \quad (a)$$

$$\frac{1}{3} \quad (d)$$

$$3 - 1 \quad (c)$$

40. The compound interest on Rs. 30,000 at 7% per annum for a certain time is Rs.

4,347. The time is:

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

$$(a) \quad 2 \text{ years}$$

$$(b) \quad 2.5 \text{ years}$$

$$(c) \quad 3 \text{ years}$$

$$(d) \quad 4 \text{ years}$$

रु० 30,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 7% वार्षिक दर से एक निश्चित समय के लिए रु० 4,347 है।

समय होगा-

$$(a) \quad 2 \text{ वर्ष}$$

$$(b) \quad 2.5 \text{ वर्ष}$$

$$(c) \quad 3 \text{ वर्ष}$$

$$(d) \quad 4 \text{ वर्ष}$$

30,000 روپے پر سود مرکب 7% سالانہ شرح سے بعض وقت کے لیے 4,347 روپے ہے۔ وقت ہوگا:

(b) 2.5 سال

(a) 2 سال

(d) 4 سال

(c) 3 سال

41. The ratio of 3 km to 300 m is:

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

(a) 10 : 1

(b) 1 : 10

(c) 1 : 5

(d) 1 : 3

3 km اور 300 m کا انوسات ہے-

(a) 10 : 1

(b) 1 : 10

(c) 1 : 5

(d) 1 : 3

3 km اور 300 m کا نسبت ہے-

1 : 10 (b)

10 : 1 (a)

1 : 3 (d)

1 : 5 (c)

42. What will be the unit digit of $\sqrt[3]{15625}$:

(a) 5

(b) 0

(c) 3

(d) 4

$\sqrt[3]{15625}$ کا इकाई अंक क्या होगा ?

(a) 5

(b) 0

(c) 3

(d) 4

$\sqrt[3]{15625}$ का اکائی ہندسہ کیا ہوگا؟

0 (b)

5 (a)

4 (d)

3 (c)

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(21)

43. Sum of 3 m and 2 n is:

- (a) 5 mn (b) 3m + 2n
(c) 5 m (d) 5n

3m और 2n का योगफल है-

- (a) 5 mn (b) 3m + 2n
(c) 5 m (d) 5n

3 m اور 2 n کا جمع ہے:

- 3m + 2n (b) 5 mn (a)
5n (d) 5 m (c)

44. $\frac{\sqrt{288}}{\sqrt{128}} = ?$

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- (a) $2\frac{1}{14}$ (b) $2\frac{3}{14}$
(c) $2\frac{5}{14}$ (d) $2\frac{9}{14}$

45. What will be the number of zeros in the square of 400?

- (a) 5 (b) 1
(c) 3 (d) 4

400 के वर्ग में कितने शून्य होंगे ?

- (a) 5 (b) 1
(c) 3 (d) 4

400 کے مربع میں کتنے صفر ہوں گے؟

- 1 (b) 5 (a)
4 (d) 3 (c)

46. How many measurements can determine a quadrilateral uniquely?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

एक विशिष्ट चतुर्भुज की कितनी माप निर्धारित कर सकते हैं ?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

ایک منفرد چار ضلع کی کتنی پیمائش طے کر سکتے ہیں؟

- 3 (b) 2 (a)
5 (d) 4 (c)

47. The diagonals of a rectangle :

- (a) equal to each other (b) not equal
(b) one is double of other (d) none of these

आयत के विकर्ण हैं-

- (a) एक दूसरे के बराबर (b) बराबर नहीं
(c) एक दोगुना है दूसरे का (d) इनमें से कोई नहीं

مستطیل کے وتر ہیں:

- (b) برابر نہیں ہیں (a) ایک دوسرے کے برابر
(d) ان میں سے کوئی نہیں (c) ایک دोगना ہے دوسرے سے

48. How many diagonals does a convex quadrilateral have?

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

P.T.O.

एक उत्तल बहुभुज में कितने विकर्ण हैं ?

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

ایک محدب چار ضلعی میں کتنے وتر ہیں؟

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- 1 (b) 2 (a)
0 (d) 3 (c)

49. $(a+b)(a-b)$ is equal to:

- (a) (a^2+b^2) (b) a^2-b^2
(c) a^2+b^2+ab (d) a^2+b^2+2ab

$(a+b)(a-b)$ बराबर है-

- (a) (a^2+b^2) (b) a^2-b^2
(c) a^2+b^2+ab (d) a^2+b^2+2ab

برابر ہے: $(a+b)(a-b)$

a^2-b^2 (b)

(a^2+b^2) (a)

a^2+b^2+2ab (d)

a^2+b^2+ab (c)

50. Which of the following is not a linear equation?

- (a) $2x + 5 = 7$ (b) $x - 7 = 0$
(c) $\frac{5x}{3} = 1$ (d) $6x + 7$

निम्नलिखित में रेखिक समीकरण नहीं है।

(a) $2x + 5 = 7$

(b) $x - 7 = 0$

(c) $\frac{5x}{3} = 1$

(d) $6x + 7$

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

مندرجہ ذیل میں خطی مساوات نہیں ہے؟

$x - 7 = 0$ (b)

$2x + 5 = 7$ (a)

$6x + 7$ (d)

$\frac{5x}{3} = 1$ (c)

51. A person caught fire on clothes is wrapped with blanket because:

- (a) The person suddenly feels cold.
- (b) to hide the burnt body parts
- (c) The person's clothes gets burnt
- (d) To reduce air supply and put fire off

कपड़ों में आग लगे हुए आदमी को कम्बल में लपेटा जाता है क्योंकि-

- (a) उस आदमी को अचानक ठंड लगती है।
- (b) जले हुए शरीर के अंगों को छुपाने के लिए
- (c) उस आदमी के कपड़े जल गये हैं।
- (d) वायु आपूर्ति को कम करने के लिए और आग बुझाने के लिए

P.T.O.

کپڑوں میں آگ لگے ہوئے آدمی کو کمبل میں لپیٹا جاتا ہے کیونکہ:

(a) اس آدمی کو اچانک سردی محسوس ہوتی ہے۔

(b) جلے ہوئے حصے کو چھپانے کے لیے

(c) اس کے کپڑے جل گئے۔

(d) ہوا کی سپلائی کو کم کرنے اور آگ بجھانے کے لیے

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

52. The energy of food is measured in:

(a) Calories

(b) Kelvin

(c) Celsius

(d) None of the above

भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है ?

(a) कैलरीज

(b) कैल्विन

(c) सैल्सियस

(d) कोई भी नहीं

کھانے کی توانائی کس میں ناپی جاتی ہے؟

(b) کیلون

(a) کیلوریز

(d) کوئی بھی نہیں

(c) سیلسیس

53. Which type of plastics can be recycled?

(a) Thermosetting plastics

(b) Thermo plastics

(c) Poly styrene

(d) Bakelite

किस प्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है ?

(a) थर्मो सैटिंग प्लास्टिक

(b) थर्मो प्लास्टिक्स

(c) पाली سٹائیرین

(d) बेके लाइट

کس قسم کی پلاسٹک کو پھر سے بنایا جاسکتا ہے؟

(b) تھرمو پلاسٹکس

(a) تھرموسٹینگ پلاسٹک

(d) سیکے لائٹ

(c) پولی اسٹائرین

54. Which of the following can not be charged easily by friction?

- (a) A plastic scale (b) An inflated balloon
(c) A woollen cloth (d) A copper rod

निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से चार्ज नहीं किया जा सकता ?

- (a) प्लास्टिक का स्केल (b) फूला हुआ गुब्बारा
(c) ऊनी कपड़ा (d) ताँबे की छड़ी

درج ذیل میں سے کون رگڑ کے ذریعے چارج نہیں ہو سکتا؟

- (a) پلاسٹک کا اسکیل (b) پھولا ہوا غبارہ
(c) اونی کپڑا (d) تانبے کی چھڑی

55. Mangalyan has been called "The Super Smart Space craft", which organisation is involved in it.

ISF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- (a) ISRO (b) TISCO
(c) PSLV (d) NASA

मंगलयान को "सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट" कहा गया है, इसमें कौनसा संगठन शामिल है ?

- (a) इसरो (b) टिसको
(c) पी० एस० एल० वी० (d) नासा

منگل یان کو "سپر اسمارٹ اسپیس کرافٹ" کہا گیا ہے۔ اس میں کون سی تنظیم شامل ہے؟

- (a) اسرو (b) ٹسکو
(c) پی۔ ایس۔ ایل۔ وی (d) ناसा

56. Object can not be seen in a dark room because:

- (a) Objects reflect light (b) Objects do not reflect light
(c) Objects consume light (d) None of the above

P.T.O.

वस्तुओं को अंधेरे कमरे में नहीं देखा जा सकता क्योंकि-

- (a) वस्तुएँ प्रकाश को परावर्तित करती हैं।
- (b) वस्तुएँ प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं।
- (c) वस्तुएँ प्रकाश का उपभोग करती हैं।
- (d) इनमें से कोई नहीं।

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

کسی تاریک کمرے میں اشیاء کو نہیں دیکھا جاسکتا کیونکہ:

- (a) اشیاء روشنی کی عکاسی کرتی ہیں۔
- (b) اشیاء روشنی کی عکاسی نہیں کرتی ہیں۔
- (c) اشیاء روشنی استعمال کرتی ہیں۔
- (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

57. What is the full form of CNG?

- (a) Common Natural Gas
- (b) Cold Natural Gas
- (c) Carbon Natural Gas
- (d) Compressed Natural Gas

सी० एन० जी० का पूर्ण नाम क्या है ?

- (a) आम प्राकृतिक गैस
- (b) ठंडी प्राकृतिक गैस
- (c) कार्बन प्राकृतिक गैस
- (d) संपीड़ित प्राकृतिक गैस

سی این جی کا مکمل نام کیا ہے؟

- (a) عام قدرتی گیس
- (b) سرد قدرتی گیس
- (c) کاربن قدرتی گیس
- (d) کمپریسڈ قدرتی گیس

58. What is considered to be an important solvent ?

- (a) Milk
- (b) Water
- (c) Petrol
- (d) Diesel

एक महत्वपूर्ण विलायक किसको माना जाता है ?

- (a) दूध
- (b) पानी
- (c) पेट्रोल
- (d) डीजल

ایک اہم سالوینٹ کس کو سمجھا جاتا ہے؟

- (a) دودھ
(b) پانی
(c) پیٹرول
(d) ڈیزل

59. When do we celebrate 'Earth Day'?

- (a) 22 April
(b) 6 August
(c) 2 February
(d) 21 June

ہم "پृथوی دیوس" کب مناتے ہیں؟

- (a) 22 اپریل
(b) 6 اگست
(c) 2 فروری
(d) 21 جून

ہم "یوم ارض" کب مناتے ہیں؟

- (a) 22 اپریل
(b) 6 اگست
(c) 2 فروری
(d) 21 جون

60. Scientist who discovered fermentation.

- (a) Alexander Fleming
(b) Louis Pasteur
(c) John Mendel
(d) Edward Jenner

کھپون کی خوج کرنے والا वैज्ञानिक है-

- (a) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
(b) लुईस पाश्चर
(c) जॉन मेण्डल
(d) एडवर्ड जेरेन

تخمیر کی دریافت کرنے والا سائنسدان ہے۔

- (a) الکوزینڈر فلیمنگ
(b) لوئس پاسچر
(c) جان مینڈل
(d) ایڈورڈ جینر

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(29)

61. A large unit made by combining many repeating small units.

- (a) Monomer (b) Polymer
(c) Glucose (d) Ethylene

कई दोहराई जाने वाली छोटी इकाइयों को मिलाकर बनाई गयी एक बड़ी इकाई को कहते हैं-

- (a) मोनोमर (b) पालीमर
(c) ग्लूकोज (d) इथाईलीन

کئی دہرائی جانے والی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو جوڑ کر ایک بڑی اکائی بنانے کو کہتے ہیں۔

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

پولیمر (b)

مونومر (a)

اتھائلین (d)

گلوکوز (c)

62. Sound can not travel though:

- (a) Air (b) Water
(c) Vacuum (d) Solids

ध्वनि किसके द्वारा संचरित नहीं होती है-

- (a) वायु (b) जल
(c) निर्वात (d) ठोसों में

آواز کس میں سفر نہیں کر سکتی ہے؟

پانی (b)

ہوا (a)

ٹھوس میں (d)

ویکیوم (c)

63. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called:

- (a) Metaphase (b) Meta stasis
(c) Meteorite (d) Meta morphosis

कठोर परिवर्तनों के द्वारा लार्वा के व्यस्क में बदलने को कहा जाता है-

- (a) मेटाफेज (b) मेटास्टेसिस
(c) मेटाराइट (उल्का पिंड) (d) मेटा मारफासिस (काया पलट)

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

سخت تبدیلیوں کے ذریعے لاروا کے بالغ میں تبدیل ہونے کو کہتے ہیں؟

- (a) میٹافیس (b) میٹااسٹاس
(c) میٹارائٹ (d) میٹامارفوسس

64. The male hormone is:

- (a) Estrogen (b) Progesterone
(c) Testosterone (d) All of these

पुरुष का हार्मोन कौनसा होता है ?

- (a) एस्ट्रोजन (b) प्रागेस्टेरॉन
(c) टेस्टोस्टेरान (d) ये सभी

مرد کا ہارمون کون سا ہوتا ہے؟

- (a) ایسٹروجن (b) پروگیسٹرون
(c) ٹیسٹوایسٹرون (d) یہ سبھی

65. A device used to reduce friction in the axels of cars and shafts of electric motors is:

- (a) Screw (b) Ball bearing
(c) Nuts and Bolts (d) Coarse substance

इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट और कार की धुरी में घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है-

- (a) स्क्रू (b) बाल बेयरिंग
(c) नट्स एवं बोल्ट्स (d) मोटे पदार्थ

P.T.O.

الیکٹرک موٹر کی شافٹ اور کار کے محور میں رگڑ کو کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے۔

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

(b) بال بیرنگ

(a) اسکرو

(d) موٹے ماڈے

(c) نٹس اینڈ بولٹس

66. The animals that produce new young ones are known as:

(a) Oviparous

(b) Viviparous

(c) Both

(d) None of these

शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं को कहा जाता है-

(a) अण्ड प्रजक

(b) जरायुज

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

بچے پیدا کرنے والے جانوروں کو کہا جاتا ہے؟

(b) وی وی پورس

(a) اووی پورس

(d) ان میں سے کوئی نہیں

(c) دونوں

67. Which of the following is not a constituent of petroleum ?

(a) Paraffin wax

(b) Lubricating oil

(c) Petrol

(d) Wood

निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है ?

(a) पैराफीन वैक्स

(b) स्नेहक तेल

(c) पेट्रोल

(d) लकड़ी

مندرجہ ذیل میں سے کون پٹرولیم کا جز نہیں ہے؟

(b) چکنا کرنے والا تیل

(a) پیرافین ویکس

(d) لکڑی

(c) پٹرول

68. Larynx is called:

- (a) Voice box (b) Music box
(c) Respiratory organ (d) None of these

कंठ किसे कहते हैं ?

- (a) वाइस बॉक्स (b) म्यूजिक बॉक्स
(c) रेस्पाइरेटरी आर्गन (d) इनमें से कोई नहीं

لیرنکس کسے کہتے ہیں؟

- (a) وائس باکس (b) میوزک باکس
(c) ریسپائرٹری آرگن (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

69. Conversion of dead vegetation into coal is called:

- (a) Coal gas (b) Carbonisation
(c) Distillation (d) Natural gas

मृत वनस्पतियों के कोयले में बदलने को कहा जाता है-

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- (a) कोयला गैस (b) कार्बनीकरण
(c) आसवन (d) प्राकृतिक गैस

مردہ پودوں کو کوئلے میں تبدیل کرنے کو کہتے ہیں؟

- (a) کوئلہ گیس (b) کاربن سازی
(c) فارتی کشید (d) قدرتی گیس

70. Sodium metal is stored in:

- (a) Water (b) Alcohol
(c) Kerosene (d) Ether

सोडियम धातु किसमें रखा जाता है ?

- (a) पानी (b) शराब
(c) मिट्टी का तेल (d) ईथर

P.T.O.

سوڈیم دھات کس میں محفوظ ہوتا ہے؟

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

(b) شراب

(a) پانی

(d) ایتھر

(c) مٹی کا تیل

71. This part of the eye controls the light entering in it.

(a) Cornea

(b) Iris

(c) Pupil

(d) Retina

आँख का कौनसा अंग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियन्त्रित करता है ?

(a) स्वच्छ मण्डल

(b) परितारिका

(c) पुतली

(d) दृष्टि पटल

آنکھ کا کون سا حصہ اس میں داخل ہونے والی روشنی کو کنٹرول کرتا ہے؟

(b) قزحیہ

(a) کورنیا

(d) آنکھ کا پردہ

(c) پتلی

72. Two parallel plane mirrors give rise to..... images.

(a) 2

(b) 3

(c) 7

(d) Intinite

दो समान्तर समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं।

(a) 2

(b) 3

(c) 7

(d) अनंत

دو متوازی مسطح آئینے عکس بناتے ہیں۔

(b) 3

(a) 2

(d) لامحدود

(c) 7

73. In example of a non-contact force is:

- (a) force exerted by us to lift a bucket.
- (b) push a stationary car.
- (c) force exerted by magnet
- (d) hit a cricket ball for a 6 run

असम्पर्क बल का एक उदाहरण है-

- (a) बाल्टी उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल
- (b) एक स्थिर कार को धक्का देना
- (c) चुम्बक द्वारा लगाया गया बल
- (d) 6 रन के लिए शाट मारना

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

غیر رابطہ قوت کی ایک مثال ہے:

- (a) بالٹی اٹھانے کے لیے ہماری طرف سے لگائی گئی طاقت
- (b) کھڑی ہوئی کار کو دھکا دینا
- (c) مقناطیس کے ذریعے لگائی گئی طاقت
- (d) 6 رن کے لیے شاٹ مارنا

74. Rust of wheat is caused by:

- (a) Bacteria
- (b) Virus
- (c) Fungi
- (d) Protozoa

गेहूँ की रस्ट किसके द्वारा होती है ?

- (a) जीवाणु
- (b) विषाणु
- (c) कवक
- (d) प्रोटोजोआ

گیہوں کی رست کس کے ذریعہ ہوتی ہے؟

- (a) بیکٹریا
- (b) وائرس
- (c) پھپھوند
- (d) پروٹوزوا

P.T.O.

2000920 (SET-D)

(35)

75. Microbe involved in curd formation:

- (a) Amoeba (b) Lactobacillus
(c) Rhizobium (d) Bread Mould

दही बनाने में शामिल सूक्ष्म जीव-

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

- (a) अमीबा (b) लैक्टोबैसिलस
(c) राइजोबियम (d) ब्रेड मोल्ड

دہی بنانے میں ملوث جرثومہ:

- (a) امیبا
(b) لیکٹوبیسلیس
(c) رائزوبیم
(d) بریڈمولڈ

Passage:

An owl is a bird. There are two basic types of owls; typical owls and barn owls. Owl live in almost every country of the world. Owls are mostly nocturnal, meaning they are awake at night. Owls are predators-they hunt the food that they eat. Owls hunt for mice and other small mammals, insects and even fish. Owls are well adapted for hunting. Their soft, fluffy feathers make their flight nearly silent. They have very good hearing which helps them to hunt well in the darkness. The sharp hooked beaks and claws of the owl makes it very easy to tear apart their prey quickly, although owls also eat some prey whole.

Owl's eyes are unusual. Like most predators, both the eyes of the owl face front. The owl can not move its eyes. Owls are far-sighted, which means they can see very well far away. Fortunately, their distant vision is what they use for hunting and they can see far away even in low light. Owls have facial disks around their eyes, tufts of

feathers in a circle around each eye. Owls can turn their heads 180 degrees. This makes it look like they might be able to turn their heads all the way around, but 180 degrees is all the owl needs to see what's going on all around. Perhaps because of the owl's mysterious appearance, especially its round eyes and flexible neck, there are a lot of myths and superstitions about owls. Many cultures believe that owls are unusually wise. Because owls are nocturnal, some cultures associate owls with bad omens. The screech of the barn owl is considered by many to sound eerily human, like a person screaming. In fact, some owl species may become extinct because of humans.

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

76. Which of the following is not true about owls?
- (a) Owls eat small animals.
 - (b) Owls are able to fly silently.
 - (c) Owls have the best hearing of all birds.
 - (d) Owls are not predators.
77. The eyesight of the owl is used for.....
- (a) flying
 - (b) hunting
 - (c) sleeping
 - (d) none of these
78. The purpose of this short article is.....
- (a) to entertain
 - (b) to inform
 - (c) to persuade
 - (d) none of these

P.T.O.

79. Suitable Title for this story can be.....
- (a) Owls hunt at night (b) Owls can fly silently
(c) Owls are interesting animals (d) Owls have flexible necks
80. Two species of owls mentioned are.....
- (a) tawny and spotted (b) typical and barn
(c) Great grey and eastern screech (d) Boreal and Eurasian
81. The synonyms of **Resolve** is:
- (a) Forget (b) Refuse
(c) Solve (d) Virtue
82. The antonyms of **Follow** is:
- (a) Lead (b) Pursue
(c) Go After (d) Short-lived
83. Marked by or Showing Bravery
- (a) Valiantly (b) Nobility
(c) Delivery (d) Defend
84. The formal study of arts, especially in relation to the idea of beauty
- (a) Aesthetics (b) Cascades
(c) Architecture (d) Artefact
85. The boys football for three hours.
- (a) playing (b) have been playing
(c) are paly (d) were play

86. The rain before you arrived.
- (a) stops (b) had stopped
(c) stopped (d) stop
87. It was very noisy next door. Our neighbours a party.
- (a) have (b) am having
(c) is having (d) were having
88. I a cheese pizza.
- (a) am have (b) will having
(c) will have (d) having
89. I would rather have coffee tea.
- (a) on behalf of (b) on the contrary
(c) in spite of (d) in case of
90. She was hiding the camera her brother.
- (a) of (b) from
(c) by (d) in
91. My mother said that she would speak here.
- (a) My mother says, "I will speak here."
(b) My mother said, "I speak here."
(c) My mother said, "I will speak here."
(d) My mother says, "I speak here."
92. Eid-ul-Fitr by the Muslims at the end of the month of Ramadan.
- (a) celebrate (b) is celebrate
(c) is celebrated (d) will be celebrated
93. May the Almighty help in this Pandemic!
- (a) Optative sentence (b) Negative sentence
(c) Both a and b (d) None of these

SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi

94. What time tomorrow?
(a) does your train leave. (b) will your train leave
(c) your train leaves (d) train will leave
95. We but we decided to drive instead.
(a) was going to fly (b) would have flown
 (c) were going to fly (d) will fly
96. Ability to be upheld or defended **SSF JAMIA MILLIA ISLAMIA**
New Delhi
(a) Sustainability (b) structure
(c) stable (d) principles
97. Ashoka was the greatest king that ever ruled our country. **in (to negative sentence)**
(a) Ashoka was not a great king that ruled our country.
(b) Ashoka was a great king, who did not rule the country.
(c) No other king that ever ruled our country was as great as the king Ashoka.
(d) No one like the king Ashoka ever rule our country.
98. The dog waited for his master at the gate **in (to interrogative sentence)**
 (a) Did the dog wait for his master at the gate?
(b) Do the dog wait for his master at the gate?
(c) Did the dog waited for his master at the gate?
(d) Why did the dog wait for his master at the gate?
99. The meaning of **Snub** is:
(a) Welcome (b) Flatter
(c) Regard (d) Ignore
100. The meaning of **Improbable** is:
(a) Believable (b) Real
(c) Ordinary (d) Rare